




बकरी, कुत्ता और गाय

Geit, Hund og Ku

 Fabian Wakholi

 Marleen Visser


 Tanvi Sirari

 hindi / bokmål

 nivå 2

(uten bilder)






बकरी, कुत्ता और गाय बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन वे टैक्सी में एक यात्रा पर गये।

...


Geit, Hund og Ku var gode venner. En dag dro de på tur med en buss.



जब वे अपनी यात्रा के अंत पर पहुँचे, तब टैक्सी चालक ने उन्हें अपना किराया देने के लिये कहा। गाय ने अपने किराया दिया।

...


Da de kom fram, ba sjåføren dem om å betale for billetten sin. Ku betalte for sin billett.



कुत्ते ने थोड़ा ज़्यादा किराया दिया क्योंकि उसके पास खुले
पैसे नहीं थे।

...


Hund betalte litt ekstra fordi han ikke hadde
akkurat med penger.



टैक्सी चालक कुत्ते को बाकी पैसे देने वाला था पर तभी बकरी पैसे दिये बिना भाग गयी।

...


Sjåføren skulle akkurat til å gi Hund vekslepengene, da Geit stakk av uten å betale.



टैक्सी चालक बहुत गुस्सा हुआ। वो कुत्ते को बाकी पैसे दिये बिना चला गया।

...


Sjåføren ble veldig sur. Han kjørte av gårde uten å gi vekslepengene tilbake til Hund.



इस कारण से अाज तक कुत्ता गाड़ी के पिछे भागता है ताकी वो उसके अन्दर देख सके और टैक्सी चालक को ढूढ़ सके जिसने उसके बाकी पैसे देने है।

...


Det er derfor Hund, selv i dag, løper mot biler for å sjekke om han ser sjåføren som skylder ham vekslepenger.



बकरी गाड़ी की आवाज सुनकर भाग जाती है। वो डरती है कि उसे किराया ना देने के लिये गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

...

Geit stikker når hun hører lyden av en bil. Hun er redd for at hun vil bli arrestert for ikke å ha betalt for billetten.



और गाय को गाड़ी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय अपना समय लेकर सड़क पार करती है क्योंकि वो जानती है कि उसने अपना पूरा किराया दिया है।

...

Og Ku bryr seg ikke når det kommer en bil.
Ku bruker god tid når hun krysser veien
fordi hun vet at hun betalte for hele billetten
sin.



Barnebøker for Norge

barneboker.no

बकरी, कुत्ता और गाय

Geit, Hund og Ku

Skrevet av: Fabian Wakholi

Illustret av: Marleen Visser

Oversatt av: Tanvi Sirari (hi), Olav Sigmond (nb)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge (barneboker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons
[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).